



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड IV
PART II—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 1978/पौष 22, 1899
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 1978/PAUSA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

का. नि. आ. 1-ई.—सशस्त्र सेना (आपात इयूटिया) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 31-ई., के अनुक्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जल निर्माण-कार्य और जल-प्रदाय, दुग्ध संसाधन और दुग्ध प्रवाया योजना और फायर बिगोड तथा उनके संयंत्रों और मशीनों के प्रचालन, रख-रखाव और उन्हें चलाने से संबंधित सेवा के प्रत्येक भाग का अथवा इनसे सम्बद्ध सभी सेवाओं का जनवरी, 1978 के 15वां दिन से एक महीने की और अधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. 2(125)/77/डी (जी. एस.-1)]

विनय व्यास, संयुक्त सचिव (ओ)।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1978.

S.R.O. 1-E .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 31-E dated the 15th December, 1977, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with water works and water supply, milk processing and milk supply schemes and fire brigades, and also operation, maintenance and running of their plants and machinery, in the State of Maharashtra to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from the 15th day of January, 1978.

[F. No. 2(125)/77/D(GS-I)]

VINAY VYAS, Jt. Secy. (O).